

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2650]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935

No. 2650]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA 6, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

का.आ. 3496(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 763 (अ), तारीख 18 मार्च, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमन्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 248.000 कि.मी. से 248.960 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने, आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 2013 को “प्रातः काल” और “राजस्थान पत्रिका” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 248.000 कि.मी. से 248.960 कि.मी. तक (निम्बीजोधा—जस्साखेड़ा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजसमन्द	(1) भीम	(1) करकरा	328	सरकारी	गै.मु. मगरी	0.1885	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				339	सरकारी	गै. मु. मगरी	0.1860	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				346	सरकारी	गै.मु. मगरी	0.4190	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				344	सरकारी	गै.मु. मगरी	0.0035	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				354	निजी	बंजड	0.0708	देवीसिंह 141/312 मंगलसिंह पि. रूपसिंह 1/2 रावत, भगवानसिंह पि. हजारीसिंह 15/312 रावत सा. देह
				557	निजी	चाही 3 जाव 3	0.0149	किशनसिंह लादुसिंह भवरसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्र मोटसिंह 1/4 बाबुसिंह बहादुरसिंह तेजसिंह कालुसिंह पि. देवीसिंह 1/8 जेठसिंह पि. पन्नासिंह 1/8 नाथुसिंह पुत्र भुरासिंह 1/4 नारायणसिंह सजनसिंह पि. गोविन्दसिंह 1/4 रावत सा. बली जस्सा खेड़ा
				556	सरकारी	गै.मु. मगरी	0.1452	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				555	निजी	बंजड	0.0054	डाऊसिंह तारासिंह पुत्र केशरसिंह 1/4 चतरसिंह लुम्बसिंह पुत्र रूपसिंह 1/2 लक्ष्मणसिंह पुत्र दुर्गासिंह 1/4 रावत सा. देह
				554	निजी	बारानी 1	0.0851	डाऊसिंह तारासिंह पुत्र केशरसिंह 1/4 चतरसिंह लुम्बसिंह पुत्र रूपसिंह 1/2 लक्ष्मणसिंह पुत्र दुर्गासिंह 1/4 रावत सा. देह
				553	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0041	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				572	निजी	बारानी 1	0.0173	प्रतापसिंह पि. मुलसिंह झमकु बेवा मुलसिंह शंकरसिंह भेरुसिंह पि. दुदसिंह सोहनसिंह किशनसिंह पि. जेठसिंह मु. अण्छी बेवा जेठसिंह रामसिंह भंवरसिंह चिमनसिंह पि. चतरसिंह 1/2 भेरा चिमना पि. दला 1/4 नारायण पि. अमरा 1/4 रावत सा. बली
				571/2	निजी	चाही 1 जाव 1	0.0198	केरसिंह पि. नाथुसिंह रावत सा. बली
				571/3	निजी	चाही 1 जाव 1	0.0445	मु. अनुदेवी बेवा नोलसिंह बदामी पुत्री नोलसिंह रावत सा. बली
				568	निजी	चाही 3 जाव 3	0.0527	प्रतापसिंह कुपसिंह उदससिंह तिलोकसिंह चिमनसिंह पि. गोविन्दसिंह 5/6 बनासिंह राजेन्द्रसिंह पि. खेतसिंह नेनु बेवा खेतासिंह 1/6 रावत सा. देह
				587	निजी	गै. मु. पत्थर	0.0247	भगवानसिंह पि. करमसिंह रावत सा. बली
				564	निजी	बंजड	0.0262	डाऊसिंह तारासिंह पुत्र केशरसिंह 1/4 चतरसिंह लुम्बसिंह पुत्र रूपसिंह 1/2 लक्ष्मणसिंह पुत्र दुर्गासिंह 1/4 रावत सा. देह
				565	निजी	बारानी 1	0.0227	प्रतापसिंह कुपसिंह उदससिंह तिलोकसिंह चिमनसिंह पि. गोविन्दसिंह 5/6 बनासिंह राजेन्द्रसिंह पि. खेतसिंह नेनु बेवा खेतासिंह 1/6 रावत सा. देह
				566	निजी	बंजड	0.0721	प्रतापसिंह कुपसिंह उदससिंह तिलोकसिंह चिमनसिंह पि. गोविन्दसिंह 5/6 बनासिंह राजेन्द्रसिंह पि. खेतसिंह नेनु बेवा खेतासिंह 1/6 रावत सा. देह
				567	निजी	बारानी 2	0.1115	प्रतापसिंह कुपसिंह उदससिंह तिलोकसिंह चिमनसिंह पि. गोविन्दसिंह 5/6 बनासिंह राजेन्द्रसिंह पि. खेतसिंह नेनु बेवा खेतासिंह 1/6 रावत सा. देह
				कुल एरिया			1.5140	
			(2) बली	774	सरकारी	गै.मु. मगरी	0.0048	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				775	निजी	बंजड	0.0049	मीरा पत्नी आंसूसिंह रावत सा. देह
				776	निजी	बारानी 2	0.0370	मीरा पत्नी आंसूसिंह रावत सा. देह
				780	निजी	बारानी 2	0.0673	पूरणसिंह पि. गोपालसिंह रावत सा. देह
				781	निजी	बारानी 2	0.0647	पूरणसिंह पि. गोपालसिंह रावत सा. देह

			789 मिन	निजी	बारानी 2	0.3082	देवीसिंह पिता भीमसिंह प्रेमसिंह पिता अन्नासिंह नेनु बेवा गाजीसिंह लक्ष्मी पि. गाजीसिंह भगवानसिंह पूर्णसिंह पिता दौलतसिंह रावत सा. देह
			784	निजी	बारानी 1	0.0457	सायरदेवी पत्नि लालसिंह रावत सा. देह
			785	निजी	बारानी 1	0.1294	पूरणसिंह पि. गोपालसिंह रावत सा. देह
			786	निजी	बारानी 2	0.1715	पूरणसिंह पि. गोपालसिंह रावत सा. देह
			787	निजी	बारानी 1	0.0134	पूरणसिंह पि. गोपालसिंह रावत सा. देह
			767	निजी	बंजड	0.1104	भगासिंह पूरणसिंह पिता दौलतसिंह मु. गंगा बेवा दौलतसिंह रावत सा. देह
			765	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0124	बिलानाम गैर काबिल काश्त
			760	सरकारी	गै. मु. आबादी	0.0311	बिलानाम गैर काबिल काश्त
			800	निजी	चाही 2	0.0017	पूरा पि. भाऊ रावत सा. कोट किराना
			801	निजी	चाही 2	0.0085	पूरा पि. भाऊ रावत सा. कोट किराना
			802	निजी	चाही 2	0.0488	कुम्पा पिता लाला रावत सा. देह खातेदार
			803	निजी	चाही 2	0.0006	भंवरसिंह दीपसिंह हीरासिंह पि. देवी सिंह मु. वरदी बेवा देवी सिंह रावत सा. देह
			751	निजी	चाही 2	0.1727	नेनु बेवा गाजीसिंह सुमित्रा गोदावरी पि. गोपालसिंह नाबा. संरक्षक पिता खुर्द गोपालसिंह रावत सा. देह
			752	निजी	चाही 2	0.0386	भगासिंह पूरणसिंह पिता दौलतसिंह मु. गंगा बेवा दौलतसिंह रावत सा. देह
			753	निजी	बारानी 1	0.0120	भगासिंह पूरणसिंह पिता दौलतसिंह मु. गंगा बेवा दौलतसिंह रावत सा. देह
			754	निजी	बारानी 1	0.0031	भगासिंह पूरणसिंह पिता दौलतसिंह मु. गंगा बेवा दौलतसिंह रावत सा. देह
			755	निजी	बारानी 1	0.0005	नेनु बेवा गाजीसिंह सुमित्रा गोदावरी पि. गोपालसिंह नाबा. संरक्षक पिता खुर्द गोपालसिंह रावत सा. देह
			750 मिन	निजी	खला	0.0033	गीतादेवी पत्नि गिरधारीसिंह सा. देह
			748 मिन	निजी	चाही 1	0.0326	गीतादेवी पत्नि गिरधारीसिंह सा. देह
			814	निजी	चाही 2	0.0147	भगासिंह पूरणसिंह पिता दौलतसिंह मु. गंगा बेवा दौलतसिंह रावत सा. देह
			815	निजी	चाही 2	0.0180	नेनु बेवा गाजीसिंह सुमित्रा गोदावरी पि. गोपालसिंह नाबा. संरक्षक पिता खुर्द गोपालसिंह रावत सा. देह
			816	निजी	चाही 2	0.0682	मोहनसिंह प्रेमसिंह पिता अक्खासिंह रावत सा. देह
			817	निजी	चाही 2	0.0162	कानसिंह पिता जगासिंह पूरणसिंह मदनसिंह पि. डूंगरसिंह कमला बेवा डूंगरसिंह रावत सा. देह
			818	निजी	गै. मु. चाह	0.0162	कानसिंह डूंगरसिंह पिता जगासिंह 1 मोहनसिंह प्रेमसिंह पि. अक्खासिंह दीपसिंह हीरासिंह पि. देवीसिंह मु. वरदी बेवा देवीसिंह तेजा आसू पिता भीमा भगवानसिंह पूरणसिंह पिता दौलतसिंह नेनुदेवी बेवा गाजीसिंह सुमित्रा गोदावरी पि. गोपालसिंह नाबा. संरक्षक पिता गोपालसिंह रावत 15 सा. चितरडाई (सवादडी) तह. देवगढ कुंपसिंह पिता लालसिंह 2 पुरा पिता भाउ 3 कोट किराना
			819	निजी	चाही 2	0.1324	कानसिंह पिता जगासिंह पूरणसिंह मदनसिंह पि. डूंगरसिंह कमला पत्नि डूंगरसिंह रावत सा. देह
			820	निजी	चाही 1	0.1584	किशनसिंह लादूसिंह भंवरसिंह लक्ष्मणसिंह पिता मोटसिंह रावत सा. देह
			821	निजी	चाही 1	0.0435	किशनसिंह लादूसिंह भंवरसिंह लक्ष्मणसिंह पिता मोटसिंह 1/2 बाबुसिंह बहादुरसिंह तेजसिंह कालुसिंह पि. देवीसिंह 1/8 जेटसिंह पि. पनासिंह 1/8 नाथुसिंह पि. भुरसिंह 1/4 नारायणसिंह सजनसिंह पि. गोविन्दसिंह 1/4 रावत सा. देह रहन भंवरसिंह पिता मोटसिंह का हिस्सा एस. बी. बी. जे. बली जरसा खेडा
			823	निजी	चाही 1	0.0312	डाउसिंह पि. केसरसिंह रावत सा. करकरा
			838	निजी	चाही 1	0.1066	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह

				839	निजी	बंजड	0.0044	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				843	निजी	चाही 1	0.1236	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				844	निजी	चाही 1 जाव 1	0.0202	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				845	निजी	चाही 1	0.0152	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				842	निजी	बंजड	0.0413	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				846	निजी	गै. मु. चाह	0.0283	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				847	निजी	गै. मु. पाल	0.0162	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				848	निजी	चाही 1	0.1645	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				835	निजी	गै. मु. आबादी	0.0040	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				836	निजी	बंजड	0.2320	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				837	निजी	बारानी 2	0.0202	भगवानसिंह पि. करमसिंह चुन्नी बेवा करमसिंह 1/4 कानसिंह भोजसिंह चैनसिंह पिता नंगासिंह 3/4 रावत सा. देह
				850	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0165	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				861	मिन सरकारी	गै. मु. मगरी	0.1163	बिलानाम गैर काबिल काश्त
				कुल एरिया			2.7313	

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/पीआईयू-ब्यावर/2013/एलए]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2013

S.O. 3496(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 763 (E), dated 18th March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / two laning etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 458 in the stretch of land from Km. 248.000 to Km 248.960 in the District Rajsamand in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Praath Kaal” and “Rajasthan Patrika”, both dated the 17th April 2013 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 248.000 to km 248.960 (Nimbijodha - Jassakhera section) of the National Highway No. 458 in the state of Rajasthan

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Khasara number	Type of land	Nature of land	Area (in Hactares)	Name of the Interested Person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajsamand	(1) Bheem	(1) Karkara	328	Government	G.M. Magri	0.1885	Bilanam Gair Kabil Kasht
				339	Government	G.M. Magri	0.1860	Bilanam Gair Kabil Kasht
				346	Government	G.M. Magri	0.4190	Bilanam Gair Kabil Kasht
				344	Government	G.M. Magri	0.0035	Bilanam Gair Kabil Kasht
				354	Private	Banjar	0.0708	Devi Singh 141 / 312 Mangal Singh S/o Rup Singh 1/2 Rawat, Bhagwan Singh S/o Hajari Singh 15 / 312 Caste Rawat Sa. Deh.
				557	Private	Chahi 3 Jaav 3	0.0149	Kishan Singh, Ladu Singh, Bhawar Singh, Lakshman Singh S/o Mot Singh 1/4 Babu Singh, Bahadur Singh, Tej Singh, Kalu Singh S/o Devi Singh 1/ 8 Jeth Singh S/o Panna Singh 1 / 8 Nathu Singh S/o Bhura Singh 1 / 4 Narayan Singh, Sajjan Singh S/o Govind Singh 1 / 4 Rawat R/o Bali Jassa Khera
				556	Government	G.M. Magri	0.1452	Bilanam Gair Kabil Kasht
				555	Private	Banjar	0.0054	Dau Singh, Tara Singh S/o Keshar Singh 1 / 4 Chatar Singh, Lumb Singh S/o Rup Singh 1 / 2 Lakshman Singh S/o Durga Singh 1 / 4 Rawat Sa. Deh.
				554	Private	Barani 1	0.0851	Dau Singh, Tara Singh S/o Keshar Singh 1 / 4 Chatar Singh, Lumb Singh S/o Rup Singh 1 / 2 Lakshman Singh S/o Durga Singh 1 / 4 Rawat Sa. Deh.
				553	Government	G.M. Rasta	0.0041	Bilanam Gair Kabil Kasht
1	Rajsamand	(1) Bheem	(1) Karkara	572	Private	Barani 1	0.0173	Pratap Singh S/o Mul Singh, Jhamku widow of Mul Singh, Shankar Singh, Bheru Singh S/o Dud Singh, Sohan Singh, Kishan Singh S/o Jeth Singh, Anchi Widow of Jeth Singh, Ram Singh, Bhawar Singh, Chiman Singh S/o Chatar Singh 1 / 2 Bhera, Chimna S/o Dala 1/4 Narain S/o Amara 1 / 4 Rawat R/o Bali
				571/2	Private	Chahi 1 Jaav 1	0.0198	Ker Singh S/o Nathu Singh. Rawat R/o Bali

				571/3	Private	Chahi 1 Jaav 1	0.0445	Mu. Annu Devi widow of Nol Singh, Badami D/o Nol Singh Rawat R/o Bali
				568	Private	Chahi 3 Jaav 3	0.0527	Pratap Singh, Kump Singh, Uday Singh, Tilok Singh, Chiman Singh S/o Govind Singh 5 /6 Bana Singh, Rajendra Singh S/o Khet Singh, Nenu widow of Khet Singh 1 /6 Rawat Sa. Deh.
				587	Private	G. M. Patthar	0.0247	Bhagwan Singh S/o Karam Singh Rawat R/o Bali
				564	Private	Banjar	0.0262	Dau Singh, Tara Singh S/o Keshar Singh 1 /4 Chatar Singh, Lumb Singh S/o Rup Singh 1 / 2 Lakshman Singh S/o Durga Singh 1 /4 Rawat Sa. Deh.
				565	Private	Barani 1	0.0227	Pratap Singh, Kump Singh, Uday Singh, Tilok Singh, Chiman Singh S/o Govind Singh 5 /6 Bana Singh, Rajendra Singh S/o Khet Singh, Nenu widow of Khet Singh 1 /6 Rawat Sa. Deh.
				566	Private	Banjar	0.0721	Pratap Singh, Kump Singh, Uday Singh, Tilok Singh, Chiman Singh S/o Govind Singh 5 /6 Bana Singh, Rajendra Singh S/o Khet Singh, Nenu widow of Khet Singh 1 /6 Rawat R/o village
				567	Private	Barani 2	0.1115	Pratap Singh, Kump Singh, Uday Singh, Tilok Singh, Chiman Singh S/o Govind Singh 5 /6 Bana Singh, Rajendra Singh S/o Khet Singh, Nenu widow of Khet Singh 1 /6 Rawat Sa. Deh.
				Total Area			1.5140	
			(2) Bali	774	Government	G.M. Magri	0.0048	Bilanam Gair Kabil Kasht
				775	Private	Banjar	0.0049	Meera w/o Aanshu Singh Rawat Sa. Deh.
				776	Private	Barani 2	0.0370	Meera w/o Aanshu Singh Rawat Sa. Deh.
				780	Private	Barani 2	0.0673	Puran Singh S/o Gopal Singh Rawat Sa. Deh.
				781	Private	Barani 2	0.0647	Puran Singh S/o Gopal Singh Rawat Sa. Deh.
				789 Meen	Private	Barani 2	0.3082	Devi Singh S/o Bheem Singh, Prem Singh S/o Anna Singh, Nenu widow of Gaji Singh, Lakshmai S/o Gaji Singh, Bhagwan Singh, Purn Singh S/o Daulat Singh Rawat Sa. Deh.
				784	Private	Barani 1	0.0457	Sayar Devi W/o Lal Singh Rawat Sa. Deh.
				785	Private	Barani 1	0.1294	Puran Singh S/o Gopal Singh Rawat Sa. Deh.
				786	Private	Barani 2	0.1715	Puran Singh S/o Gopal Singh Rawat Sa. Deh.
				787	Private	Barani 1	0.0134	Puran Singh S/o Gopal Singh Rawat Sa. Deh.

			767	Private	Banjar	0.1104	Bhaga Singh, Puran Singh S/o Daulat Singh, Ganga widow of Daulat Singh Rawat Sa. Deh.
			765	Government	G.M. Rasta	0.0124	Bilanam Gair Kabil Kasht
			760	Government	G.M. Aabadi	0.0311	Bilanam Gair Kabil Kasht
			800	Private	Chahi 2	0.0017	Pura S/o Bhau Rawat R/o Kot Kirana
			801	Private	Chahi 2	0.0085	Pura S/o Bhau Rawat R/o Kot Kirana
			802	Private	Chahi 2	0.0488	Kumpa S/o Lala Rawat R/o Village
			803	Private	Chahi 2	0.0006	Bhanwar Singh, Deep Singh, Heera Singh S/o Devi Singh, Vardi widow of Devi Singh Rawat Sa. Deh.
			751	Private	Chahi 2	0.1727	Nenu Widow of Gaji Singh, Sumitra, Godawari S/o Gopal Singh minor, care taker S/o Gopal Singh Rawat Sa. Deh.
			752	Private	Chahi 2	0.0386	Bhaga Singh, Puran Singh S/o Daulat Singh, Ganga widow of Daulat Singh Rawat Sa. Deh.
			753	Private	Barani 1	0.0120	Bhaga Singh, Puran Singh S/o Daulat Singh, Ganga widow of Daulat Singh Rawat Sa. Deh.
			754	Private	Barani 1	0.0031	Bhaga Singh, Puran Singh S/o Daulat Singh, Ganga widow of Daulat Singh Rawat Sa. Deh.
			755	Private	Barani 1	0.0005	Nenu Widow of Gaji Singh, Sumitra, Godawari S/o Gopal Singh minor, care taker S/o Gopal Singh Rawat Sa. Deh.
			750 Meen	Private	Khala	0.0033	Geeta Devi w/o Girdhari Singh Sa. Deh.
			748 Meen	Private	Chahi 1	0.0326	Geeta Devi w/o Girdhari Singh Sa. Deh.
			814	Private	Chahi 2	0.0147	Bhaga Singh, Puran Singh S/o Daulat Singh, Ganga widow of Daulat Singh Rawat Sa. Deh.
			815	Private	Chahi 2	0.0180	Nenu Widow of Gaji Singh, Sumitra, Godawari S/o Gopal Singh minor, care taker S/o Gopal Singh Rawat Sa. Deh.
			816	Private	Chahi 2	0.0682	Mohan Singh, Prem Singh S/o Akhha Singh Rawat Sa. Deh.
			817	Private	Chahi 2	0.0162	Kaan Singh S/o Jaga Singh, Puran Singh, Madan Singh S/o Dungar Singh, Kamla Widow Dungar Singh Rawat Sa. Deh.
			818	Private	G.M. Chah	0.0162	Kaan Singh, Dungar Singh S/o Jagga Singh 1 Mohan Singh, Prem Singh S/o Akhha Singh, Deep Singh, Heera Singh S/o Devi Singh, Vardi widow of Devi Singh, Teja Aashu S/o Bheema, Bhagwan Singh, Puran Singh S/o Daulat Singh, Nenu Devi widow of Gaji Singh, Sumitra, Godawari D/o Gopal

								Singh minor care taker Gopal Singh Father caste Rawat 15 R/o Chitaradai (Savadadi) Tehsil Devgarh Kupsingh S/o Lalsingh 2 Pura S/o Bhau 3 Sa. Kote Kirana
				819	Private	Chahi 2	0.1324	Kaan Singh S/o Jaga Singh, Puran Singh, Madan Singh S/o Dungar Singh, Kamla Widow Dungar Singh Rawat Sa. Deh.
				820	Private	Chahi 1	0.1584	Kishan Singh S/o Ladu Singh, Bhawar Singh, Lakshaman Singh S/o Mot Singh Rawat Sa. Deh.
				821	Private	Chahi 1	0.0435	Kishan Singh S/o Ladu Singh, Bhawar Singh, Lakshaman Singh S/o Mot Singh 1 / 2 Babu Singh, Bahadur Singh, Tej Singh, Kalu Singh S/o Devi Singh 1 / 8 Jeth Singh S/o Pana Singh 1 / 8 Nathu Singh S/o Bhur Singh 1 / 4 Narain Singh, Sajan Singh S/o Govind Singh 1 / 4 Rawat Sa. Deh. Rehan Bhawar Singh S/o Mot Singh ka share S.B.B.J. Bali Jassa Khera
				823	Private	Chahi 1	0.0312	Dau Singh S/o Keshar Singh Rawat Sa. Karkara
				838	Private	Chahi 1	0.1066	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 / 4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 / 4 Rawat Sa. Deh.
				839	Private	Banjar	0.0044	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 / 4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 / 4 Rawat Sa. Deh.
				843	Private	Chahi 1	0.1236	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 / 4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 / 4 Rawat Sa. Deh.
				844	Private	Chahi 1 Jaav 1	0.0202	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 / 4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 / 4 Rawat Sa. Deh.
				845	Private	Chahi 1	0.0152	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 / 4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 / 4 Rawat Sa. Deh.
				842	Private	Banjar	0.0413	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 / 4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 / 4 Rawat Sa. Deh.
				846	Private	G.M. Chah	0.0283	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 / 4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 / 4 Rawat Sa. Deh.
				847	Private	G.M. Pal	0.0162	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam

								Singh 1 /4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 /4 Rawat Sa. Deh.
				848	Private	Chahi 1	0.1645	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 /4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 /4 Rawat Sa. Deh.
				835	Private	G.M. Aabadi	0.0040	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 /4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 /4 Rawat Sa. Deh.
				836	Private	Banjar	0.2320	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 /4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 /4 Rawat Sa. Deh.
				837	Private	Barani 2	0.0202	Bhagwan Singh S/o Karam Singh, Chunni widow of Karam Singh 1 /4 Kaan Singh, Bhoj Singh, Chain Singh S/o Nanga Singh 3 /4 Rawat Sa. Deh.
				850	Government	G.M. Rasta	0.0165	Bilanam Gair Kabil Kasht
				861 Meen	Government	G.M. Magri	0.1163	Bilanam Gair Kabil Kasht
						Total	2.7313	

[F. No. NHAI/BOT/PIU-Beawar/2013/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.